



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 23, 2006/फाल्गुन 4, 1927

No. 165]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2006/PHALGUNA 4, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2006

का.आ. 240(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31-8-2005 के सं. का.आ. 1212(अ), के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

तेहखंड ग्राम में निम्नलिखित 3.60 है० भू-क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित अनुसार परिवर्तन किया जाता है:—

क्षेत्र का विवरण	भू उपयोग से	में
नार्थ : रेलवे कंटेनर यार्ड	“मनोरंजनात्मक	“रिहायशी”
साउथ : डिस्ट्रिक्ट पार्क	(डिस्ट्रिक्ट पार्क)”	
ईस्ट : डिस्ट्रिक्ट पार्क		
वेस्ट : रिहायशी भूखंड		

[सं. के-13011/30/1995-डीडी-1बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2006

S. O. 240(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1212(E) dated 31st August, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 3.60 ha. of land at Village Tehkhand is changed as per description listed below :—

Description of Area	Land Use From	To
North : Railway Container Yard	“Recreational (District Park)”	“Residential”
South : District Park		
East : District Park		
West : Residential Plot		

[No. K-13011/30/1995-DD-1B]

S. MUKHERJEE, Under Secy.